

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 498 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 19, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2015

क्र. एफ 19-79-2015-एक-4.—राज्य शासन राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-4-2015-सात-समन्वय दिनांक 25-08-2015 द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय एवं निजी भूमियों के प्रबंधन से संबंधित विषयों की समग्र समीक्षा कर अनुशासाएं प्रस्तुत करने हेतु गठित “राज्य भूमि सुधार आयोग” के अध्यक्ष पद पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, सेवानिवृत्त, महानिदेशक, प्रशासन अकादमी को नियुक्त करता है। श्री अशोक कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त, उपायुक्त (विधि) आयोग के सदस्य सचिव होंगे।

2. राजस्व विभाग “राज्य भूमि सुधार आयोग” का नोडल विभाग होगा। राजस्व विभाग आयोग को आवश्यक सुविधाएं एवं सहायता उपलब्ध करायेगा।
3. आयोग की शेष संरचना के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. बाणीय, प्रमुख सचिव.